	raceibi	Priority Catego		of Transfer g Last 7 Years	Date of Birth		.C. (NCL)/EWS/BP .G. Child/General		tance From KV in K.M.
II above	informa	tions are							
illed by		Checked by		Compute	rised by	Verified by Adn	nission Incharge		Counter Sign. of Principal
E.		,			विद्यात			ų v	जीकरण संख्या ∕ Registration No.
तत त्य	र्ग पृष्ठन अपावण				Vidyalay	a Sang	gatnan		
केन्द्रीय (विद्यालय संगठन	के			द्यालय	00.04			Recent Photograph of the Child
			d	61/ Y	ear 202	20-21			(Passport Size)
भा के लि	ए पंजीकर	ण/Registratio	on for cla	ass					(r dooperr olae)
विद्यार्थी	का पूरा ना	म (हिन्दी में)'''''	•••••						
Name o	of Child (n full Capital	Letters i	n English).				Sex M	F Third Gender
जन्म तिर्वि	थे (अंकों म	i) Date of Birth	h दिन Day		माह Month		वर्ष Year		
		ds							
बच्चे की	ो आयु 31.	03.2019 को /		वर्ष		माह		दिन 「	
				/ear		Months		Days	
Age of	Child as	on 31.03.2019	1		the child (with Rh		(प्रमाण संलग्न करें /		relevant certificate)
Age of बच्चे का छात्र की	Child as रक्त समूह श्रेणी / T	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to	त)/Bloo which c	d Group of hild belong		factor)			
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसू चित जाति.	ते)/Bloc which c अनु. जन	d Group of hild belong . जाति अं	ो.बी.सी. आर्थिवः र	factor)	र्ग बीपीएल 1	/ Attached	इकलौती संतान (कन्या)
Age of बच्चे का छात्र की	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to	त)/Bloo which c	d Group of hild belong . जाति अं		factor)	र्ग बीपीएल 1	/ Attached	
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat.	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC गाति/जनजाति/ओ	हेत)/Bloo which c अनु. जन ST ो.बी.सी. (गै	od Group of hild belong . जाति अं ि र क्रीमीलेयर)/	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) जप से कमजोर वग EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	र्ग बीपीएल f BPL C 	Attached विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप	इकलौती संतान (कन्या) SiNGLE GIRL Child ण-पत्र संलग्न करें।
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat.	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC गाति/जनजाति/ओ	हेत)/Bloo which c अनु. जन ST ो.बी.सी. (गै	od Group of hild belong . जाति अं ि र क्रीमीलेयर)/	ो. बी. सी. आर्थिक र OBC	factor) जप से कमजोर वग EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	र्ग बीपीएल f BPL C 	Attached विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप	इकलौती संतान (कन्या) SiNGLE GIRL Child ण-पत्र संलग्न करें।
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित प the child l	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC गाति/जनजाति/ओ	हेत)/Bloo which c अनु. जन ST L ो.बी.सी. (गै	d Group of hild belong . जाति अं 	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) जप से कमजोर वग EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	इकलौती संतान (कन्या) SiNGLE GIRL Child ण-पत्र संलग्न करें।
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित ज the child l	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC हिंदी शिवनजाति/ओ pelong to SC / ST	हेत) / Bloo o which c अनु. जन ST ो.बी.सी. (गै ा OBC (No	d Group of hild belong . जाति अं 	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ at. अनुसूचित प the child l पिता का ब्य	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST	हेत)/Blood which constraints of Mother	d Group of hild belong . जाति अं र क्रीमीलेयर)/ on Creamylay	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य जिल्ला C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ at. अनुसूचित प the child l पिता का ब	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIत/जनजाति/ओ helong to SC / ST जैरा / Details o	हेत)/Blood which constraints of Mother	d Group of hild belong . जाति अं र क्रीमीलेयर)/ on Creamylay	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का विज्ञ की जान	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ at. अनुसूचित प the child b पिता का ब म स्पष्ट श ame (in C स्ट्रीयता / t	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIत/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गौरा / Details co	हेत)/Blood which constraints of Mother	d Group of hild belong . जाति अं र क्रीमीलेयर)/ on Creamylay	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का विश्व का जात की का जात की ज	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ .at. अनुसूचित प the child b पिता का ब म स्पष्ट श ame (In C क्ट्रीयता / I वस्साय / C	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC ाति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o	हेत)/Blood which constraints of Mother	d Group of hild belong . जाति अं र क्रीमीलेयर)/ on Creamylay	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का विश्व का जात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित प the child b म स्पष्ट श ame (in c) स्ट्रीयता /। वसाय / C	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o ब्बॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality	हेत)/Blood which ci अनु. जन ST .वो.बी.सी. (गै I / OBC (No of Mother	d Group of hild belong . जाति अ ए क्रीमीलेयर)/ on Creamylay //Father	ो.बी.सी. आर्थिवः र OBC /आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का छात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित प the child b पिता का ब म स्पष्ट श ame (In C स्ट्रीयता / I वसाय / C मेल आई:अ बे का आध	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC ाति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o ब्दॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation की / E-Mail Id	हेत)/Blood which construction which construction with the state of th	d Group of hild belong . जाति अ ए क्रीमीलेयर)/ on Creamylay //Father	ो.बी.सी. आर्थिवः र OBC 'आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का	Child as vकत समूह श्रेणी / T श्रेणी अ sat. अनुसूचित ज स्म सम्बद्ध सा सम्बद्ध सा अमुसूचित ज स्म सम्बद्ध सा अम् सम्बद्ध का आम्र स्मित्य का आम्र सा अम् सम्बद्ध सा अम्याम सम्बद्ध सा अम् सम्बद्ध सम्बद्ध सा अम् सम्बद्ध सा अम्वद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्वद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्वद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्य सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सा अम्य सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्य	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST प्रेचिंग / Details of saif में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation ही / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो नाम, पूरा पता व	हैत)/Blood which control which control which control with the state of the state o	d Group of hild belong . जाति अं ए क्रीमीलेयर)/ on Creamylay //Father h)	ो.बी.सी. आर्थिवः र OBC 'आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का जात्र की साभान्य Gen C	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ at. अनुसूचित प the child b the child b वस्ताय / C वेल आई:उ वे का आध र्यालय का me of Offic f आवासीय II residen ephone n	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details of ब्यॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation ही / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो चाम, पूरा पता य e and full address I पता य दूरभाष s tial address wit	हेत)/Blood which control which control which control with the state of the state o	d Group of hild belong . जाति अं ि क्रीमीलेयर)/on Creamylay/Father	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC /आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का व का जिल्ला कि का जिल्ला की ज	Child as vकत समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित ज the child b पिता का ब म स्पष्ट श ame (In o स्ट्रीयता / I वसाय / O मेल आई;व बे का आध र्यालय का me of Offic f आवासीय II residen ephone in	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o स्वां में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Decupation ही / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो नाम, पूरा पता व e and full address पता व दूरभाष s tial address with subbers (with)	हेत)/Blood which construction which construction with the state of th	d Group of hild belong . जाति अं ि क्रीमीलेयर)/on Creamylay/Father	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC /आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का व का जिल्ला कि कि का जिल्ला	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित ज the child be	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to पुर्स्चित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o ब्बॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality occupation जी / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो नाम, पूरा पता व e and full address t पता व दूरभाष प्र tial address wit umbers (with)	हेत)/Blood which construction which construction with the state of th	d Group of hild belong . जाति अं ि क्रीमीलेयर)/on Creamylay/Father	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC /आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का जात्र की साभान्य Gen C	Child as vकत समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित प the child be t	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to पुर्सूचित जाति. SC IIIति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details of ब्यॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation कि / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो नाम, पूरा पता य pe and full address पता व दूरभाष प्र tial address with umbers (with) से दूरी (किलोमीटर में Permanent Add	हेत)/Blood which control which control which control with the control wit	d Group of hild belong . जाति अं	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC /आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	डुकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का का अप क	Child as रक्त समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित ज the child is	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC ाति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o ब्बॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation जी / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो नाम, पूरा पता व se and full address पता व दूरभाष प्र tial address with which seems with a seem of the seems with Permanent Add Basic Pay	हैत)/Blood which control which control which control which control with the control with t	d Group of hild belong hild belong . जाति अं िर क्षीमीलेयर)/on Creamylay/Father h) No., if possephone number hild the	n.बी.सी. आर्थिक र OBC 'आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) SU से कमजोर वर् EWS वर्ग/बी.पी.एल./वि	f बीपीएल f BPL C D कलांग/इकलोती कन्य category, Please at	विकलांग Disabled ा से है तो प्रमाप ttach releva	इकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————
Age of बच्चे का	Child as vकत समूह श्रेणी / T श्रेणी अ cat. अनुसूचित ज the child is t	on 31.03.2019 (Rh फैक्टर सहि he category to नुसूचित जाति. SC ाति/जनजाति/ओ pelong to SC / ST गैरा / Details o ब्बॉ में (हिन्दी में) Capital Letters Nationality Occupation की / E-Mail Id ार नं., यदि हो तो, नाम, पूरा पता व हेव and full address पता व दूरभाष है पता व देशहर्ग है प्रार्थ (किलोमीटर में Permanent Add Basic Pay प्रार्थ (दिलामीटर में व (Category to which to L/(Central/State) Autor है ले/Employee Code,	हत)/Blood which control with the control which control with con	od Group of hild belong . जाति अं .	ो.बी.सी. आर्थिक र OBC 'आर्थिक रूप से कमजोर yer) / EWS / BPL / Dis	factor) जप से कमजोर वर EWS वर्ग/बी पी.एल./वि sabled / S.G. Child माता / Mothe	ि बीपीएल वि BPL [] are in / इकलोती कन्य category, Please at	Attached विकलांग Disabled प्रा से है तो प्रमा ttach releva	इकलौती संतान (कन्या) SINGLE GIRL Child ————————————————————————————————————

मेहा गुगाग एउ	,	SERVICE	CERTIFICA	TE	(केन्टीरा मासार	Central	Government)
Hai yhin ya	/	SERVICE	CERTIFICA		(कन्द्राय सरकार /	Cential	Government

प्रमाणित किया जाता है कि श्रा/श्रामता	
कार्यालय/मंत्र	लय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा
	त.एफ. / केन्द्रीय सरकार स्वायित संस्था अथवा सार्व <mark>जनिक क्षेत्र के उप</mark> क्रम जो पूर्ण या आंशिक
	र्मचारी है तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय हैं।
	is working as regular employee in
	He/She is a regular employee of
	F/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed /
	services are non-transferable / transferable any where in India.
	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
स्थान/Place	Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
16 7197 / Date	्दूरभाष नं
	Tel. No.
सेवा प्रमाण पत्र / SERVIC	E CERTIFICATE (राज्य सरकार / State Government)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	,
	गर्यरत है तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है / एवं पूर्ण राज्य में क र्ही भी स्थानान्तरणीय है।
	is permanently working in the Office
Certified that Shri/Sint	and his / her services
transferable/transferable anywhere	n State
are non-transferable/transferable anywhere	n State.
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
स्थान/Place दिनांक/Date	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Placeदिनांक/Date	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Placeदिनांक/Date	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Placeविनांक/Date कार्यातय का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Placeविनांक/Date कार्यातय का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place दिनांक/Date कार्यातय का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण (केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचा	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place दिनांक/Date कार्यातय का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण (केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचा प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place विनांक/Date कार्यातय का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण (केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचा प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी स्वर्गीय श्री/श्रीमती (कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/श	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp ूर्स्भाष नं —पत्र / CERTIFICATE OF DEATH IN HARNESS रियों के लिए / ONLY FOR CENTRAL GOVT. EMPLOYEES)
स्थान/Place दिनांक/Date कार्यात्य का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाणा (केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचा प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी स्वर्गीय श्री/श्रीमती (कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/श्	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp ूर्स्भाष नं —पत्र / CERTIFICATE OF DEATH IN HARNESS रियों के लिए / ONLY FOR CENTRAL GOVT. EMPLOYEES)
स्थान/Place दिनांक/Date कार्यात्य का पूर्ण पता Complete address of office सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाणा (केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचा प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी स्वर्गीय श्री/श्रीमती (कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/श्	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp
स्थान/Place	कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित) Sign. & Name in block letter and designation of the Head office with stamp दूरभाष नं

	नाम) (31.03.2019 तक) में एक स्थान			(कार्यालय), ए	तद द्वारा प्र	माणित करता/व	करती हूँ पिछ
	(31.03.2019 तक) न एक स्थार ब्दों में) स्थानान्तरण हुए जिनक	177					
	ाब्दा म) स्थानान्तरण हुए।जनक ,						(Ran
Designa past 7 ye	tion) of ars (upto 31.03.2019) I hav	e been transf	erred		(Office), do	herby certify the	nat during th
k in word	s) from one station to anoth	er, the details o			15.	1 \ 0 -0	
क्र.सं.	कार्यालय/यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक ∕पदनाम Rank/Designation	दिनांक से/ From	/ Date तक / To	ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
S.No.	Office/Offic	Flace	Kank Designation	4/ From	(147/10	, silva di sila,	
1		-					
2						1	
3							
4							
5							7
6							
		+					
7	′जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तः			× ×	->	च्या को जागेगा।	
						माता/पिता व	
		पति हस्ताक्ष					April 1
a			₹/COUNTER SIG	SNATURI	E	माता /पिता व Signature of M	हे हस्ताक्षर other/Father
¥			र/COUNTER SIC	SNATURI	E	माता /पिता व Signature of M	हे हस्ताक्षर other/Father
रेंक/पद	i,		र/COUNTER SIC (नाम)(SNATURI	E	माता /पिता व Signature of M	हे हस्ताक्षर other/Father
रैंक/पदः उपरोक्त वि	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	जाँच लिया गया	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है।	GNATURI कार्यालय), ए	ह्र	माता/पिता व Signature of M प्रमाणित करता/	हे हस्ताक्षर other/Father /करती हूँ वि
रैंक/पदः उपरोक्त वि ।,	ताम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से	जाँच लिया गया	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है। (Name)	GNATURI कार्यालय), ए	ह इतद द्वारा उ (Unit/De	माता / पिता व Signature of M प्रमाणित करता / partment), he	हे हस्ताक्षर other/Father /करती हूँ वि
रैंक/पदः उपरोक्त वि ।,	i,नाम)कार्यालय-आलेखों से	जाँच लिया गया	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है। (Name)	GNATURI कार्यालय), ए	ह इतद द्वारा उ (Unit/De	माता / पिता व Signature of M प्रमाणित करता / partment), he	हे हस्ताक्षर other/Father /करती हूँ वि
रॅंक/पदः उपरोक्त वि ।,)signat natthe pa	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से ion) of articulars given in the above	जाँच लिया गया	र / COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है। (Name)	GNATURI कार्यालय), ए	ट्ट इतद द्वारा । (Unit/De e office and	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct.	हे हस्ताक्षर other/Father /करती हूँ वि (Rank reby certif
रॅंक/पदा उपरोक्त वि l, signat natthe pa	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से ion) of articulars given in the above	जाँच लिया गया have been au	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है । (Name) thenticated by the recor	anatiena), ए कार्यालय), ए ds held in the	ट्ट इतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct.	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father करती हूँ वि(Rankereby certif
रैंक/पदा उपरोक्त वि l,)signat hatthe pa स्थान/Pl देनांक/C	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से sion) of articulars given in the above	जाँच लिया गया have been au	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है। (Name) thenticated by the recor	anatiena), ए कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ह्रतद द्वारा । (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. pruferur की मोह	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father other/Father (Rankereby certif
रैंक/पदा उपरोक्त वि l,)signat hatthe pa स्थान/Pl देनांक/C	ताम)विदरण को कार्यालय-आलेखों से ion) ofarticulars given in the above ace	जाँच लिया गया have been au	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है । (Name) thenticated by the recor कार्यालय अध्यक्ष का sign. & Name in block lo	कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ट्रतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. piर्यालय की मोहः f the Head office	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father other/Father (Rankereby certif
रैंक/पदः उपरोक्त वि , signat hatthe pa स्थान/Pl देनांक/L हार्यालय का पू	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से ion) of articulars given in the above ace drugger of the address of office	जाँच लिया गया have been au	र/COUNTER SIC (नाम)(है व सही पाया गया है । (Name) thenticated by the recor कार्यालय अध्यक्ष का ign. & Name in block le	कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ट्रतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. piर्यालय की मोहः f the Head office	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father other/Father (Rankereby certif
रैंक/पदः उपरोक्त वि signat hatthe pa स्थान/Pl देनांक/E कार्यालय का पू	ताम)विदरण को कार्यालय-आलेखों से ion) ofarticulars given in the above ace	जाँच लिया गया have been au S	र / COUNTER SIC(नाम)(है व सही पाया गया है ।(Name)	कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ट्रतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. piर्यालय की मोहः f the Head office	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father other/Father (Rankereby certif
रंक/पदः उपरोक्त वि signat hatthe pa स्थान/Pl देनांक/E कार्यालय का पू	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से ion) ofarticulars given in the above ace	जाँच लिया गया have been au S	र / COUNTER SIC(नाम)(है व सही पाया गया है ।(Name)	कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ट्रतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. piर्यालय की मोहः f the Head office	हे हस्ताक्षर other/Father other/Father other/Father (Rankereby certif
रंक/पदः उपरोक्त वि signat natthe pa ह्यान/Pl देनांक/E	नाम)वेवरण को कार्यालय-आलेखों से ion) ofarticulars given in the above ace	जाँच लिया गया have been au S	र / COUNTER SIC(नाम)(है व सही पाया गया है ।(Name)	कार्यालय), ए ds held in the नाम, पद और etter and des	ट्रतद द्वारा उ (Unit/De e office and हस्ताक्षर (व signation o	माता/पिता व Signature of Ma प्रमाणित करता/ partment), he found correct. piर्यालय की मोहः f the Head office	क हस्ताक्षर other/Fathe /करती हूँ f(Ran ereby certi

- Mere registration will not confer a right to admission. 1.
- Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, the Principal may allow completion of the form 2. later at his discretion.
- Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such 3. action of the Principal shall be entertained.
- Proof of Residence shall have to be produced by all applicants.
- Attested copy of date of birth proof having name of child. 5.
- Attested copy of OBC/SC/ST/EWS/BPL/Disabled/SGC Certificate attached. 6.
- A self declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect as a inproforma. 7.
- See details on KVS website: www.kvsangathan.nic. in and School Website.

4 -0 -0 -0	T-पत्र/UNDERTAKING) (अधिभावक का नाम) शापशपर्वक	मोच	
मे. श्री/श्रीमती	(अभिभावक का नाम) शपथपूर्वक	7 /17	
रता / करती हूँ कि मेरा निवास स्थान केन्द्रीय विद्यालय	सेकिलोमीटर है। मैं पूर्णतः अपने आश्रित (पुः	a/ya	
(पुत्र/पुत्री का नाम)	तक्षामें प्रवेश होने पर लाने-ले जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँग	1/464	
1,	(Name of Parent) solmnly undertake that dis	tance	
y Residence is Km. from Kendriya Vidy	layaI am totally responsible for the conveyar	ice ai	
e admission of my Son/Daughter	(Name of Child) in Class		
fficial Address	Signature in Full		
	Name of Father/Mother		
	Mobile No. (O)		
esidential Address	Telephone No. (R)		
	Place :Date :		
	E-Mail :		
	CHECK LIST		
. Registration form is complete in all respect.	Yes/No		
Attested copy of date of birth proof having nam	of child. Yes / No		
Attested copy of OBC/SC/ST/EWS/BPL/Disate	ed/SGC Certificate attached Yes / No		
. Service Certificate as in performa.	Yes/No		
. Copy of Residential Proof.	Yes/No Yes/No		
Undertaking of distance as in performa.	N (N)		
. Phone No. of parent office and residence as in	enorma.		
 Certificate of transfers during last 7 years as or Copy of Aadhar Card of the Child. 	Yes/No		
	रणी / Schedule For Admission		
अवश का रिर्णु समय र इसा 2 एवं अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण (कक्षा 11 को छोड़कर	(SII) Collocation is a second		
Contents	Scheduled Date		
24T – विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में	NOTE : During School Hr.		
eclaration of list of class 2 onwards क्षा - 2 एवं आगे कक्षाओं के लिए सूची जारी करना	29-07-2020		
dmission for class 2 onwards.	20.07.2020 - 07/08/0020		
क्क्षा - 2 एवं आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश ast date of Admission except XI	30-07-2020 to 07/08/2020		
भी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि	15-09-2020		
Registration of Class XI* (For KV students0	Within or days after declaration of Board Result.		
क्षा XI का पंजीकरण risplay of list & Admission of Class -XI			
5क्षा - XI के लिए सूचीजारी करना एवं प्रवेश गैर के.बि. के छात्र/छात्रा : 5क्षा XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश	After the admission of KV students in class XI		
रिक्तियाँ होने की स्थिति में)			
Non KV students : Registration, display of admission	t and the second		
admission in class XI.			
	/ Acknowledgement Registration No.		
	/ Session 2019-20		
ь.н. /S.No.	से उनके पुत्र/पुत्री		
श्री/श्रीमती	The second secon		
का कक्षां प्रवेश हेतु पंज	हरण आवद्न-पत्र प्राप्त किया। for redist	ration	
of her her / his son / daughter	for admission to class		
	प्रवेश प्रभारी / I/C Admission / प्राचार्य / Principal केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya		